

## सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों पर नहीं करती कोई सुनवाई:कुमारी सैलजा



हिन्द जनपथ,सिरसा (ब्यूरो)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखण्ड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार कानों में तेल डालकर सो रही, आम आदमी, किसान, कर्मचारी, अधिकारी और डॉक्टर अपनी जायज मांगों को लेकर चीख रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है ऐसे में उन्हें धरना, प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है, इन दोनों की जंग में बेचारी जनता पिस रही है। ऐसे हालात में सरकार कौन से सुशासन का दावा करती है, अगर यही सुशासन है तो जनता को ऐसे शासन की जरूरत नहीं है समय आने पर वह इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर रहेगी। मीडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि गठबंधन सरकार ने सुनवाई के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं वहां केवल जनता को उपदेश देती है जनता की सुनती नहीं है। जो सरकार गुंगी और बहरी होती है वहां की जनता कभी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करती। पहले किसान

● कहां-हड़ताल होने से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जनता

● डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की जान पर बन आती है तो कई की चली जाती है जान

● पटवारी और कानूनगो की हड़ताल से किसान और जनता होती है परेशान, राजस्व का होता है नुकसान

आंदोलन चला पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और झूठे आश्वासन देकर किसानों की हड़ताल खत्म करवा दी हकीकत तो ये है कि आज भी कोई वायदा इमानदारी से पूरा नहीं किया, किसानों को परेशान करने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजे दिया। कर्मचारी और अधिकारी भी आज अपने हकों के लिए धरना, प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। सरकार इनके पीछे विरोधियों को हाथ बताकर बैठ जाती है जबकि सच्चाई जनता तो जानती है सरकार भी जानती है पर मानती नहीं है। यही वजह है कि आज हरियाणा की जनता स्वयं को कोस रही है कि क्या सोचकर इस सरकार को चुना था, आने वाले चुनाव में जनता अपनी भूल का सुधार करते हुए इस सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पटवारियों और कानूनगो ने विभिन्न मांगों को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पटवारियों और कानूनगो का कहना है कि सरकार के साथ कुछ मांगों पर समझौता हुआ था पर सरकार उसे भी लागू नहीं कर रही है। राजस्व पटवारियों का वेतनमान 25500 से बढ़ाने पर सहमत हुई थी और न ही वेतन विसंगति दूर की गई है। वेतन विसंगति दूर करने के लिए कई बार कहा गया पर कोई सुनवाई न हुई और हर पटवारियों और कानूनगो ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि सरकार चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रदेश के 3000 डॉक्टर हड़ताल पर है और उनकी मांग न मानी तो 29 दिसंबर से वे पूर्ण हड़ताल पर चल जाएंगे ऐसे में मरीजों की जान खतरों में पड़ सकती है।



## शहीदी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका

हिन्द जनपथ,फतेहगढ़ साहिब (ब्यूरो)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित शहीदी जोड़मेल के दूसरे दिन गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए। पवित्र स्थान पर माथा टेकने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुकद्दस स्थान न केवल सिखों के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि दसमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने छोटी उम्र में शहादत प्राप्त की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि माता गुजरी जी और साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत वाली यह पवित्र धरती सदियों से पंजाबियों को बेइस्पाफी, जुल्म और दमन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित करती आ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे साहिबजादे ने उस समय के सरहिन्द के मुगल शासक के मनमाने और जुल्म के विरुद्ध खड़े होकर निर्भय और बहादुरी का बेमिसाल प्रदावा किया था। उन्होंने कहा कि साहिबजादों को शूरवीरता और त्याग की भावना दसमेश पिता जी से ही विरासत में मिली है और गुरु साहिब जी ने मानवता की खातिर हकूमत के खिलाफ डट कर लड़ई लड़ी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज दुनिया भर से संगत विश्व के इतिहास में बेमिसाल बलिदान देने वाले छोटे साहिबजादों को श्रद्धा और सत्कार भेंट करने के लिए फतेहगढ़ साहिब में पहुँच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जब छोटे साहिबजादों की उम्र में किसी अन्य ने अतुलनीय बलिदान दिया हो। उन्होंने कहा कि विश्व को साहिबजादों के बेमिसाल बलिदान पर गर्व है, जिस कारण यह न केवल पंजाबियों या देशवासियों के लिए बल्कि हरेक मानव के लिए गर्व की बात है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि उनको राज्य और लोगों की सेवा करने का सौभाग्य हासिल हुआ है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार समाज के हरेक वर्ग की भलाई के लिए महान गुरु साहिबान और शहीदों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने याद करते हुए कहा कि उनके लोक सभा मैरर होते हुए तत्कालीन लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के स्थान में मामला लाने के बाद सदन ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि भेंट की थी। भगवंत सिंह ने कहा कि समूचा पंजाब इस महीने को 'शाक के महीने' के तौर पर मनाता है क्योंकि इन दिनों में ही ज़ालिम शासकों ने छोटे साहिबजादों को जिवित ही नीवों में चिनवा दिया था। उन्होंने कहा कि नौजवान पीढ़ी को इस बेमिसाल बलिदान के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, जिससे उनको देश की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

## मुख्यमंत्री ने की एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की अध्यक्षता

● बैठक में लगभग 264 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को दी गई मंजूरी ● विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद लगभग 5 करोड़ रुपये की हुई बचत

हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के स्कूलों में वर्ष 2024- 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त ऋय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 55 करोड़ रुपये की मुद्रण लागत आएगी। इसके अलावा, एचपीपीसी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरे तय करके लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत की गई है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

जॉइंट एस्टीमेट के उपचारित पानी का सिंचाई के लिए होगा उपयोग, परियोजना को मिली मंजूरी -हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विज्ञान के साथ क्रियांचित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है। इस कड़ी में आज की बैठक में जॉइंट में स्थापित 15 एमएलडी क्षमता के एस्टीमेट प्लॉट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए एस्टीमेट पर

## भूसली और बीजना पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा

हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के विधायक श्री हरविंद कल्याण ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए करनल के घरोडा में साढ़े तीन करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को अच्छी कीमत मिले, इसकी भी योजना सरकार बना रही है। श्री कल्याण आज जिला करनल के गांव भूसली और बीजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। हरियाणा के विकास पर बनी लघु फिल्म दिखाई गई। लोक संपर्क विभाग के कलाकारों बिजेन्द्र नरवाल व उनकी पार्टी द्वारा विकाससत्क गीत प्रस्तुत किए गए। भूसली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश सुनाया गया। श्री कल्याण ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH JAL SHAKTI DEPARTMENT					
"Notice Inviting Tender (Offline)"					
The Assistant Engineer Jal Shakti Vibhag Tubewell Sub Division Nalagarh invites offline tenders on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following work (s) through offline process-					
Sr. No.	Description of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of form	Time limit
1	Providing LWSS Under Khera Nichla, Khera Gharat and adjoining villages in Tehsil Nalagarh Distt.Solan (HP) ( SH- Laying and jointing of pipe line to Improvement the distribution system of various villages).	191223/-	3824/-	250/-	One Month
2	Restoration of rain damages of LIS Nahar Singh in Tehsil Baddi Distt.Solan (HP) ( SH- C/O Kacha feeder Channel, C/O head wear and pit).	190260/-	3805/-	250/-	One Month
3	Stock Storage of JSV Division Nalagarh in Tehsil Nalagarh Distt.Solan (HP) ( SH- Demolition of mouny of sub. Division Lab).	192908/-	3858/-	250/-	One Month
4	Stock Storage of JSV Division Nalagarh in Tehsil Nalagarh Distt.Solan (HP) ( SH- Balance brick masonry of newly T/Well sub-division office building Nalagarh).	133056/-	2661/-	250/-	One Month
5	Stock Storage of JSV Division Nalagarh in Tehsil Nalagarh Distt. Solan (HP) (SH-P/F Door and windows of newly constructed building office of newly T/Well sub division office building Nalagarh).	165519/-	3310/-	250/-	One Month
6	Retrofitting and Improvement of LWSS Khera in Tehsil Nalagarh Distt. Solan (HP) under JJM (SH-C/O RCC sector storage tank 20000 liters at village Bansal).	198370/-	3967/-	250/-	Three Month
7	Retrofitting and Improvement of LWSS Khera in Tehsil Nalagarh Distt. Solan (HP) under JJM (SH-C/O RCC sector storage tank 20000 liters at village Bansal).	195900/-	3918/-	250/-	One month
8	Restoration rain damages of LIS Handa Kundi in Tehsil Nalagarh Distt. Solan (HP) (SH-C/O Intake channel & Division bandh if LIS Handa Kundi).	105750/-	2115/-	250/-	One Month

Last date of submission of tender: 29-12-2023 up to 11:00 AM.  
1. Last date of sale the tender from Sub-Division office: 30-12-2023 up to 4:00 PM.  
2. The tender forms and other detailed conditions can be had from office of above the Assistant Engineer up to date specified above.

HIM SUCHNA AVAM JAN SAMPARK Assistant Engineer, JSV Tubewell Sub Divn. Nalagarh Distt.Solan (HP)

R.NO. 4627/2023-2024

HIMACHAL PRADESH JAL SHAKTI VIBHAG NOTICE INVITING TENDER					
Sealed item on form PWD-6 and PWD-8 rates basis are invited by the Assistant Engineer, Jal Shakti Sub-Division, Kotla on behalf of Governor of Himachal for the below mentioned work from the contractors/firms of appropriate class enlisted with Himachal Pradesh, Jal Shakti Vibhag.					
Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time limit	Cost of tender form
1	R/M of various LWSS under Jal Shakti Sub-Division Kotla Section Mastgarh Tehsil Jawali Distt. Kangra (HP) (SH- Cutting and welding for leakage of various point and common Head welding LWSS Mastgarh Amni, LWSS Phehi Rajol)	Rs. 136832/-	Rs. 2737/-	Three Month	Rs. 250/-
2	R/M of various LWSS under Jal Shakti Sub-Division Kotla Tehsil Jawali Distt. Kangra (HP) (SH- Repair/Rewinding of centrifugal pump, Repair of starter, P/F Copper wire,P/F of new starter, Changer over switch & kit-Kat etc.)	Rs. 182864/-	Rs. 3657/-	15 days	Rs. 250/-
3	R/M of various LWSS under Jal Shakti Sub-Division Kotla Section Mastgarh Tehsil Jawali Distt. Kangra (HP) (SH- P/F of Sluice valve and non return valve)	Rs. 123578/-	Rs. 2472/-	One Month	Rs. 250/-

The tender reach in this office on or before 05-01-2024 upto 03:00 PM and will be opened on the same day at 03:30 PM in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be had from his office against cash payment (non-refundable) upto 12:00 PM on 05-01-2024. The bidders are advised to note other details of tender from the departmental website <https://hphhp.org> The Executive Engineer, reserves the right to reject/cancel any or all the bids without assigning any reason(s).

Assistant Engineer, Jal Shakti Sub-Division, Kotla Tehsil Jawali Distt. Kangra. R.NO.4638/2023-2024



सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर/ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी, इस पर लगभग लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों के सुधारिकरण को भी मिली मंजूरी - बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत सेक्टर-103/106, सेक्टर-102ए/103, सेक्टर 102/102ए तथा सेक्टर-106/109 तथा सेक्टर 75/75ए की मास्टर रोड डिवाइडिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। साथ ही, सेक्टर सेक्टर 27/28 तथा 28/43 की डिवाइडिंग के

साथ सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी व अन्य कार्यों का विकास कार्य के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर-75 से 89 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी सड़कों के कार्य के लिए लगभग 159 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, अर्बन डेवलपमेंट श्री डी एच देवी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सिंचाई एवं

जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती आशिमा बराड़, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पीसी मीणा, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एश्रीनिवास और वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री पंकज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

### PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR Code to view the Notice)



## EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED

Our Company was incorporated as "Himachal Exicom Communications Limited", a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh situated at Jalandhar on May 9, 1994. Our Company was granted a certificate of commencement of business on May 11, 1994, by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh situated at Jalandhar. The name of our Company was changed to "Exicom Tele-Systems Limited", pursuant to a resolution passed by our Shareholders on August 6, 2008, and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name issued by the RoC on August 11, 2008. For details of the change in registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters - Brief history of our Company" on page 232 of the DRHP.

Registered Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan, 173 213, Himachal Pradesh, India; Tel: +91 179 2230 948  
Corporate Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Plot No. 38, Institutional Area, Sector 32, Gurugram 122 001 Haryana, India; Tel: +91 124 6615 100  
Contact Person: Sangeeta Karnatak, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 124 6615 200  
E-mail: investors@exicom.in; Website: www.exicom.in; Corporate Identity Number: UG64203HP1994PLC01451

### NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] MILLION, COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 4,000.00 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,400,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] MILLION ("OFFER FOR SALE") BY NEXTWAVE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "OFFERED SHARES") (THE "OFFER"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Potential bidders may note the following:

a) Vinsan Brothers Private Limited ("Vinsan"), a member of our Promoter Group has undertaken a transfer of Equity Shares by way of secondary sale ("Transfer"), in favour of one of our Promoters, NextWave Communications Private Limited ("NextWave"), as detailed below:

Date of Transaction/ Transfer	Name of Transferor/ Selling Shareholder	Name of Transferee/ Acquirer/ Allottee	Declaration whether Transferee/Acquirer connected with our Company, Promoters, Promoter Group, Directors, Key Managerial Personnel/Senior Management, Subsidiaries, Group Companies and their respective directors and key managerial personnel	Nature of Transfer	Number of Equity Shares Transferred	Transfer Price per Equity Shares (in ₹)
December 26, 2023	Vinsan Brothers Private Limited	NextWave Communications Private Limited	(i) NextWave is one of the Promoters of our Company. For further details, see "Promoter and Promoter Group" on page 259 of the DRHP	Secondary transaction (sale)	8,740,685	141.00
			(ii) NextWave is a shareholder of our Group Companies, HFCL Limited, Exicom Power Systems Private Limited ("Exicom Power") and Exicom Energy Systems Private Limited ("Exicom Energy") of which Exicom Power and Exicom Energy are its subsidiaries			
			(iii) Anant Nahata, one of our Promoters and our MD and CEO, is a promoter, director and shareholder of NextWave			
			(iv) Anant Nahata, a promoter, director and shareholder of NextWave is on the board of directors of our Subsidiary, Exicom Tele-Systems (Singapore) Pte. Ltd. and our Group Companies, Exicom Power, Exicom Energy and Satellite Finance Private Limited* and is also a shareholder of our Group Company, HFCL Limited			

b) Details of the shareholding of Vinsan and NextWave in the Company, prior to and subsequent to the Transfer, are set forth below:

S. No.	Name	Pre-Transfer Shareholding		Post-Transfer Shareholding	
		No. of Equity Shares	Percentage of pre-offer share capital of the Company (%)	No. of Equity Shares	Percentage of pre-offer share capital of the Company (%)
1.	NextWave Communications Private Limited	66,014,028	71.45	74,754,713	80.91
2.	Vinsan Brothers Private Limited	12,992,304	14.06	42,51,619	4.60

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
 <b>MONARCH NETWORK CAPITAL</b> Monarch Network Capital Limited 4 <sup>th</sup> Floor, B Wing, Laxmi Towers, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Tel.: +91 22 66476400 E-mail: projectcharge@mnclgroup.com Investor grievance E-mail: mbd@mnclgroup.com Contact person: Saahil Kinkhabwalal/ Rupali Verma Website: www.mnclgroup.com SEBI Registration: MB/INM000011013	 <b>UNISTONE</b> Unistone Capital Private Limited A/ 305, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400 059, India. Tel.: +91 22 46046494 E-mail: mb@unistonecapital.com Investor Grievance E-mail: compliance@unistonecapital.com Contact Person: Brijesh Parekh Website: www.unistonecapital.com SEBI Registration: INM000012449	 <b>SYSTEMATIX GROUP</b> Investments Re-defined Systematix Corporate Services Limited The Capital, A-Wing No. 603-606, 6 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C-70, G-Block, BKC, Bandra (East), Mumbai- 400 051, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6704 8000 E-mail: mb ipo@systematixgroup.in Investor grievance E-mail: investor@systematixgroup.in Contact person: Jinal Sanghvi Website: www.systematixgroup.in SEBI Registration: INM000004224	 <b>LINK Intime</b> Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 083 Maharashtra, India Tel.: +91 810 811 4949 E-mail: exicom.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance E-mail: exicom.ipo@linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Website: www.linkintime.co.in SEBI Registration No: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED  
On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Sangeeta Karnatak  
Company Secretary and Compliance Officer

EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP applicable statutory and regulatory requirements with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the website of the Company at [www.exicom.in](http://www.exicom.in), the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the websites of the Stock Exchanges, i.e., the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and websites of the BRLMs, i.e., Monarch Network Capital Limited, Unistone Capital Private Limited and Systematix Corporate Services Limited at [www.mnclgroup.com](http://www.mnclgroup.com), [www.unistonecapital.com](http://www.unistonecapital.com) and [www.systematixgroup.in](http://www.systematixgroup.in), respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" of the DRHP on page 28. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made.